



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 1977/श्रावण 21, 1899

No. 272]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 1977/SRAVANA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 12th August 1977

G.S.R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 237/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977, the Central Government hereby exempts cinematograph films, exposed, falling under sub-item II of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column (2) of the Table below, from so much of the duty of excise leviable thereon, as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or, as the case may be, column (4) thereof

THE TABLE

Sl. No.	Description	Amount of duty for films made wholly in black and white	Amount of duty for films made wholly or partly in colour
(1)	(2)	(3)	(4)
		(in rupees per print of picture)	(in rupees per print of picture)
1. FEATURE FILM, NOT EXCEEDING 4000 METRES IN LENGTH —			
(a)	Cleared for home consumption before the date of first release of the film for public exhibition or within twelve months from such date, or both		
	(i) first 12 prints of each picture	Nil	Nil
	(ii) next 12 prints of each picture	1500	2500
	(iii) next 12 prints of each picture	4500	7500
	(iv) next 12 prints of each picture	4500	7500
	(v) next 12 prints of each picture	6000	10000
	(vi) on the balance	9000	15000
(b)	Cleared for home consumption after twelve months from the date of first release of the film for public exhibition . . .	1500	2500
2. ADVERTISEMENT SHORTS AND FILMS, NOT OTHER- WISE SPECIFIED OF WHATEVER LENGTH			
		(in paise per metre)	(in paise per metre)
		180	300

Provided that in determining the number of prints of a feature film eligible for exemption under this notification, the number of prints of that film already cleared prior to the date of publication of this notification in the Official Gazette shall be taken into account.

2 In respect of films described under serial No. 1 of the said Table exceeding 4000 metres in length, the duty rates shall be increased by twenty-five per cent of the rates specified in the said Table in respect of films of corresponding specifications.

3 In respect of films, exposed, which are below 30 mm in width—

(a) if cleared in the manner specified in serial No. 1(a) of the said Table, the duty rates shall be limited to sixty per cent of the rates specified in the said Table for films of corresponding specifications but irrespective of the length of the film;

- (b) if cleared in the manner specified in serial No 1(b) of the said Table, the duty shall be nil;
- (c) if falling under serial No. 2 of the said Table, the duty rates shall be limited to sixty per cent. of the rate specified in the said Table for films of corresponding specifications

Explanation 1.—Where in a feature film only one or two song or dance sequences or a combination of song and dance sequences not exceeding two in number is or are in colour and the remaining portion of the film is in black and white, such film shall be deemed to be made wholly in black and white

Explanation 2.—For the purposes of this notification, the term "length" does not include such portion of the film as contains the certificate issued by the Central Board of Film Censors in respect of that film.

[No 275/77]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1977

सांका०नि० 573(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 237,77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 को अधिश्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 37 की उपमद (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित कथा फिल्मों को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जो उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ (3) या (4) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	पूर्णतया श्याम- श्वेत फिल्मों के लिए शुल्क की रकम	पूर्णतया या भागत. रंगीन फिल्मों के लिए शुल्क की रकम
1	2	3	4
1.	4000 मीटर से अधिक लंबाई की फिल्में—	(चित्र के प्रत्येक फ्रेम के लिए रुपयों में रकम)	(चित्र के प्रत्येक फ्रेम के लिए रुपयों में रकम)
	(क) जिनकी निकासी देशी उपभोग के लिए, लोक, प्रदर्शन के लिए फिल्म की प्रथम रिलीज की तारीख से पूर्व या ऐसी तारीख से बारह		

1	2	3	4
मास के भीतर अथवा दोनों अवधियों में की जाए—			
(i) प्रत्येक चित्र के पहले 12 प्रिंटों पर .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
(ii) प्रत्येक चित्र के अगले 12 प्रिंटों पर .	1500	2500	
(iii) प्रत्येक चित्र के और अगले 12 प्रिंटों पर .	4500	7500	
(iv) प्रत्येक चित्र के उससे और अगले 12 प्रिंटों पर .	4500	7500	
(v) प्रत्येक चित्र के उससे भी और अगले 12 प्रिंटों पर .	6000	10000	
(vi) शेष प्रिंटों पर .	9000	15000	
(ख) जिनकी निकासी लोक प्रदर्शनी के लिए फिल्म की प्रथम रिलीज की तारीख से बारह मास के पश्चात् देशी उपभोग के लिए की जाए .	1500	2500	
	(प्रति मीटर पैसों में)	(प्रति मीटर पैसों में)	
2. विज्ञापन शार्ट और फिल्में जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं तथा जो किसी भी लम्बाई की हैं .	180	300	

परन्तु यह कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के लिए पात्र होने के लिए कथा फिल्मों के प्रिंटों की संख्या का अवधारण करने में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व पहले ही निकासी की गई फिल्मों के प्रिंटों की संख्या गणना में ली जाएगी।

2 उक्त सारणी की क्रम संख्या 1 के अधीन वर्णित 4000 मीटर से अधिक लम्बाई की फिल्मों की बाबत शुल्क की दर में उक्त सारणी में तत्संबंधी विनिर्देशों वाली फिल्मों की बाबत, विनिर्दिष्ट दरों पर पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी।

3 30 मिलीमीटर से कम चौड़ाई वाली, उद्भाषित फिल्मों की बाबत—

(क) यदि उनकी निकासी, उक्त सारणी की मद सं० 1(क) में विनिर्दिष्ट रीति से की जाती है तो शुल्क की दर उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट, तत्संबंधी विनिर्देशों वाली फिल्मों के लिए, किन्तु फिल्म की लम्बाई कितनी भी क्यों न हो, विनिर्दिष्ट दरों के साथ प्रतिशत तक सीमित होगी।

(ख) यदि उनकी निकासी, उक्त सारणी की क्रम सं० 1(ख) में विनिर्दिष्ट रीति से की जाती है तो शुल्क की दर शून्य होगी।

- (ग) यदि वे उक्त सारणी की क्रम सं० 2 के अंतर्गत सम्मिलित हैं तो शुल्क की दर उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी विनिर्देशों वाली फिल्मों के लिए दरो के साठ प्रतिशत तक सीमित होगी।

स्पष्टीकरण 1—जहां किसी कथा फिल्म में केवल एक या दो गाने या नृत्य दृश्य या दो से अधिक गानों और नृत्य दृश्यों का संयोजन रंगीन है या है और फिल्म का शेष भाग श्याम-श्वेत है वहां ऐसी फिल्म को पूर्णतया श्याम और श्वेत में बताया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “लम्बाई” पद के अंतर्गत फिल्म का ऐसा भाग नहीं आता जिसमें केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा उस फिल्म के संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र है।

[सं० 275'77]

G S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by Section 40 of the Finance Act, 1977 (29 of 1977), the Central Government hereby exempts for the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending with the date immediately preceding the date of publication of this notification in the Official Gazette, cinematograph films, exposed, falling under sub-item II of Item No 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table below from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or, as the case may be, column (4) thereof.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Amount of duty for films made wholly in black and white	Amount of duty for films made wholly or partly in colour
(1)	(2)	(3)	(4)
		(in rupees per print of picture)	(in rupees per print of picture)
1. FEATURE FILM, NOT EXCEEDING 4000 METRES IN LENGTH :—			
	(a) Cleared for home consumption before the date of first release of the film for public exhibition, or within twelve months from such date, or both		
	(i) first 12 prints of each picture	Nil	Nil
	(ii) next 12 prints of each picture	1500	2500

(1)	(2)	(3)	(4)
(iii) next 12 prints of each picture		4500	7500
(iv) next 12 prints of each picture		4500	7500
(v) next 12 prints of each picture		6000	10000
(vi) on the balance		9000	15000
(b) Cleared for home consumption after twelve months from the date of first release of the film for public exhibition]		1500	2500
2. ADVERTISEMENT SHORTS AND FILMS, NOT OTHERWISE SPECIFIED OF WHATEVER LENGTH		(in paise per metre)	(in paise per metre)
		180	300

Provided that in determining the number of prints of a feature film eligible for exemption under this notification, the number of prints of that film already cleared prior to the 18th day of June, 1977, shall be taken into account

2 In respect of films described under serial No 1 of the said Table exceeding 4000 metres in length, the duty rates shall be increased by twenty-five per cent of the rates specified in the said Table in respect of films of corresponding specifications

3 In respect of films, exposed, which are below 30 mm in width—

- if cleared in the manner specified in serial No 1(a) of the said Table, the duty rates shall be limited to sixty per cent of the rates specified in the said Table for films of corresponding specifications but irrespective of the length of the film,
- if cleared in the manner, specified in serial No 1(b) of the said Table, the duty shall be nil,
- if falling under serial No 2 of the said Table, the duty rates shall be limited to sixty per cent of the rates specified in the said Table for films of corresponding specifications

Explanation 1—Where in a feature film only one or two song or dance sequences or a combination of song and dance sequences not exceeding two in number is or are in colour and the remaining portion of the film is in black and white, such film shall be deemed to be made wholly in black and white

Explanation 2—For the purposes of this notification the term "length" does not include such portion of the film as contains the certificate issued by the Central Board of Film Censors in respect of that film

[No 276/77]

G. K. PILLAI, Under Secy

सांकांमि० 574 (अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 29) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37 की उपमद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित, उद्भाषित, विनेमा फिल्मों को, जो नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, 18 जून, 1977 को पारम्भ और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के लिए, उस पर उद्घणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देनी है जो, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) या (4) में विनिर्दिष्ट है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	पूर्णतया श्याम- श्वेत फिल्मों के लिए शुल्क की रकम	पूर्णतया या भागत. रंगीन फिल्मों के लिए शुल्क की रकम
1	2	3	4
1.	4000 मीटर से अनधिक लंबाई की फिल्में—	(चित्र के प्रत्येक फ़्रेम के लिए रुपयों में रकम)	(चित्र के प्रत्येक फ़्रेम के लिए रुपयों में रकम)
	(क) जिनकी निकासी देशी उपभोग के लिए, लोक प्रदर्शन के लिए फिल्म की प्रथम रिलीज की तारीख से पूर्व या ऐसी तारीख से बारह मास के भीतर अथवा दोनों अवधियों में की जाए—		
	(i) प्रत्येक चित्र के पहले 12 फ़्रेमों पर .	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ii) प्रत्येक चित्र के अगले 12 फ़्रेमों पर	1500	2500
	(iii) प्रत्येक चित्र के और अगले 12 फ़्रेमों पर	4500	7500
	(iv) प्रत्येक चित्र के उससे और अगले 12 फ़्रेमों पर	4500	7500
	(v) प्रत्येक चित्र के उससे भी और अगले 12 फ़्रेमों पर	6000	10000
	(vi) शेष फ़्रेमों पर	9000	15000
	(ख) जिनकी निकासी लोक प्रदर्शन के लिए फिल्म की प्रथम रिलीज की तारीख से बारह मास के पश्चात् देशी उपभोग के लिए की जाए	1500	2500
2	विज्ञापन शार्ट और फिल्में जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं तथा जो किसी भी लम्बाई की हैं .	(प्रति मीटर पैसे में) 180	(प्रति मीटर पैसे में) 300

परन्तु यह कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के लिए पात्र होने के लिए कथा फिल्मों के फ़्रेमों की संख्या का अवधारण करने में, 18 जून, 1977 से पूर्व पहले ही निकासी की गई फिल्मों के फ़्रेमों की संख्या गणना में ली जाएगी।

2. उक्त सारणी की क्रम संख्या 1 के अधीन वर्णित 4000 मीटर से अधिक लम्बाई की फिल्मों की बाबत शुल्क की दर में उक्त सारणी में तत्संबंधी विनिर्देशों वाली फिल्मों की बाबत, विनिर्दिष्ट दरों पर पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी।

3 30 मिलीमीटर से कम चौड़ाई वाली उद्भाषित, फिल्मों की बाबत—

- (क) यदि उनकी निकासी, उक्त सारणी की मद सं० 1(क) में विनिर्दिष्ट रीति में की जाती है तो शुल्क की दर उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट, तत्संबंधी विनिर्देशों वाली फिल्मों के लिए, किन्तु फिल्म की लम्बाई कितनी भी क्यों न हो, विनिर्दिष्ट दरों के साथ प्रतिशत तक सीमित होगी।
- (ख) यदि उनकी निकासी, उक्त सारणी की क्रम सं० 1(ख) में विनिर्दिष्ट रीति से की जाती है तो शुल्क की दर शून्य होगी।
- (ग) यदि वे उक्त सारणी की क्रम सं० 2 के अन्तर्गत सम्मिलित हैं तो शुल्क की दर उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी विनिर्देशों वाली फिल्मों के लिए दरों के साथ प्रतिशत तक सीमित होगी।

स्पष्टीकरण 1.—जहां किसी भी कथा फिल्म के केवल एक या दो गाने या नृत्य दृश्य या दो से अनधिक गानों और नृत्य दृश्यों का संयोजन रगीत है या है और फिल्म का शेष भाग श्याम-श्वेत है वहां ऐसी फिल्म को पूर्णतया श्याम और श्वेत में बनाया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “लम्बाई” पद के अन्तर्गत फिल्म का ऐसा भाग नहीं आता जिसमें केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा उस फिल्म के संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र है।

[सं० 276 77]

जी० के० पिल्लै, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977